



प्रेस विज्ञप्ति



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जून 10, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 154 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-29 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अवधेश साहनी पुत्र स्व विहारी नि० तिनकोनिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 120/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मोती पुत्र वंशराज नि० 27 नर्सरी थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 88/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त तीरथ पुत्र रामवृक्ष नि० हरमन टोला थाना बृजमनगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 103/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. रामभुवन पुत्र सीताराम नि0 बजहा उर्फ अहिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 40 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर 237/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में 2. उदयी पुत्र सीताराम नि0 बजहा उर्फ अहिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में 3. रमेश पुत्र हीरा नि0 बजहा उर्फ अहिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय 239/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व 4. अभियुक्त अकली पुत्र गोबरी नि0 बजहा उर्फ अहिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 240/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व 5. अभियुक्त महेन्द्र पुत्र भुक्खल नि0 बजहा उर्फ अहिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 40 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 241/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

एनडीपीएस एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* अभियुक्त 1. राहुल पुत्र योगेश कुमार नि0 गौतमबुद्धनगर थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज 2. संजय पुत्र विजय शर्मा नि0 वार्ड नं0 14 थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज 3. आमिर खान उर्फ कतलू पुत्र मोहम्मद सफीक नि0 सुकरौली थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 580 अदद एम्पुल इंजेक्शन (प्रतिबंधित) बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

कस्टम एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. दिनानाथ पुत्र रामदेव 2. अखिलेश पुत्र बेचई 3. प्रदीप पुत्र चन्द्रशेखर नि0 भरवलिया थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 बोरी यूरिया बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 10 कस्टम एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-19 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 09/10.06.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 40 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।